

विद्या भवन, बालिका विद्यापीठ, लखीसराय

वर्ग-सप्तम

विषय-हिन्दी

॥ अध्ययन-सामग्री ॥

कारक की परिभाषा

कारक ऐसे शब्दों को कहते हैं जो क्रिया के करने से होते हैं। उदाहरण के तौर पर वाक्य “राम को वनवास जाना था” को देखा जा सकता है। इस वाक्य में यह देखा जा सकता है कि राम कर्ता हैं और जाना क्रिया, लेकिन क्रिया एवं करता को मिलाने वाला “को” है। इस वाक्य में “को” कारक है।

कारक के अन्य उदाहरण

- रावण ने सीता का अपहरण कर लिया था।
- प्रतीक ने पत्र लिखा।
- सुनीता ने खाना खा लिया।
- सुरेश को घूमने जाना है।
- ट्रेन ने रफ्तार पकड़ ली थी।
- आधी रात को कुत्ते भौंक रहे थे।
- सुरेश कार से जा रहा था।
- रीना के द्वारा मुझे यह बात पता चली।
- तुम ने यह कहा था।
- ट्रेन कानपुर पहुंच चुकी है।

कारक के भेद

- कर्ता कारक

- कर्म कारक
- करण कारक
- संप्रदान कारक
- अपादान कारक
- संबंध कारक
- अधिकरण कारक
- संबोधन कारक

कर्ता कारक

वाक्य में जो शब्द कार्य करता है उसे कर्ता कारक कहा जाता है। इस प्रकार के कारक कर्ता द्वारा किए गए कार्य को दर्शाते हैं। इसका प्रयोग सदैव भूतकाल में होता है, एवं उसकी विभक्ति ने द्वारा होती है।

“ने” द्वारा प्रदर्शित कर्ता सदैव संज्ञा या सर्वनाम होता है।

कर्ता कारक के उदाहरण :-

- राम ने खाना खा लिया।
- धीरज ने अपना काम कर लिया।
- वैशाली ने यह कहा था।
- माताजी ने कुत्ते पालें हैं।
- तुम ने क्या किया?
- ट्रेन ने रफ्तार पकड़ ली।
- रविंदर ने चुप रहना सही समझा।
- प्रतिलिपि ने प्रतियोगिता शुरू की है।

कर्म कारक

इस प्रकार का कारक, क्रिया पर प्रभाव डालता है इस कारण इसे कर्म कारक कहा जाता है। “को” को इसका चिन्ह माना जाता है। किंतु कहीं कहीं पर को का लोप होता है, एवं उसके बिना ही वाक्य को कर्म कारक से बनाया जा सकता है। कर्म कारक सदैव द्वितीय विभक्ति में प्रयोग किया जाता है।

कर्म कारक के उदाहरण :-

- धीरज को मारो।

- निखिलेश को ये देदो।
- राम ने सुग्रीव को राजगद्दी दिलवाई।
- जामवांत, हनुमान को कुछ याद दिला रहे थे।
- सुमन कानपुर जा रही है। (यहां को का लोप देखा जा सकता है)

करण कारक

करण कारक, क्रिया करवाने के साधन को कहा जाता है। उदाहरण के तौर पर वाक्य “नीता, खिलौने से खेल रही है” को देखा जा सकता है। यहां पर नीता कर्ता है, एवं खेलना क्रिया, लेकिन खिलौना क्रिया को क्रियान्वित कराने वाला कारक है। इसी तरह खिलौने ने से के माध्यम से क्रियान्वित किया, इस कारण, से करण कारक